



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आषाढ़, 1940 (श०)

संख्या- 630 राँची, शुक्रवार

29 जून, 2018 (ई०)

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

आदेश

12 जून 2018

संख्या-03नि0पं0-13/2016 रा0नि0आ0 1048.. यतः राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2015 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65क 'क' सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर (यदि कोई हो) विचार करने के पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त या न्यायोचित्य कारण नहीं है ;

अतः इस संबंध में उपायुक्त, लोहरदगा के प्रतिवेदन/अनुपूरक प्रतिवेदन एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षोपरान्त अब राज्य निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क, सहपठित झारखण्ड

पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65'क' 'क' के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों/स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से अगले तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित किया जाता है।

क्रमांक	जिला	निर्वाचन क्षेत्र	नाम एवं पता	कारण
1	2	3	4	5
1	लोहरदगा	XVII लोहरदगा-04	परमेश्वर महतो, ग्राम-फुलसुरी, पं0-ककरगढ़, प्रखण्ड-कुडू, जिला-लोहरदगा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2		XVII लोहरदगा-04	अरुण भारती, ग्राम-माराडीह, पो0-कुडू, पं0-पंडरा, प्रखण्ड-कुडू, जिला-लोहरदगा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
3		XVII लोहरदगा-05	बुलकी कुमारी, ग्राम-हुदू, पंचायत-हनहट, प्रखण्ड-कैरो, जिला-लोहरदगा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
4		XVII लोहरदगा-06	बबली कुमारी, ग्राम-हरमु, पंचायत-हरमु, प्रखण्ड-लोहरदगा, जिला-लोहरदगा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
5		XVII लोहरदगा-07	मो0 मंजूर अंसारी, ग्राम-तोड़ार, पंचायत-तोड़ार, प्रखण्ड-सेन्हा, जिला-लोहरदगा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
6		XVII लोहरदगा-07	शंकर महतो, ग्राम-कलहेपाट, पो0-अरू, पंचायत-अरू, प्रखण्ड-सेन्हा, जिला-लोहरदगा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
7		XVII लोहरदगा-08	राजमनी उरॉव, ग्राम-भंडरा, पंचायत-भंडरा, प्रखण्ड-भंडरा, जिला-लोहरदगा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

ह०/-(अस्पष्ट),

उप निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग,
झारखण्ड, राँची।
